

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)  
नई दिल्ली

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक (अंकों में) .....  
(शब्दों में) ..... प्राप्तांक .....

परीक्षा की तारीख ..... परीक्षक के हस्ताक्षर .....

पारंगत परीक्षा  
प्रश्न पत्र-प्रथम  
..... 2015

समय : 3 घंटे

पूर्णांक : 100

1. नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 10 हिंदी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय लिखिए और हिंदी शब्दों से कार्यालयीन हिंदी में वाक्य बनाइए। (15 अंक)

1. निरस्त 2. अचल संपत्ति 3. मितव्ययिता 4. प्रोत्साहन 5. अवैतनिक 6. अपरिहार्य  
7. दृष्टि बंधक 8. परिवीक्षाधीन 9. प्रयोगशाला 10. परमाणु 11. नियोक्ता 12. भ्रामक सूचना

2. निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। (15 अंक)

- (1) वर्तमान ऋण का समायोजन करें।  
(2) विसंगति का समाधान किया जाए।  
(3) सभी भ्रांतियों का निवारण किया जाए।  
(4) सरकारी कर्मचारी निजी रोजगार न करें।  
(5) लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में सूचना का अधिकार निर्विवाद रूप से आवश्यक है।  
(6) योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यालय आवश्यक प्रबंध करेंगे।  
(7) कृपया इस मामले को परम अग्रता दें।  
(8) निविदा प्रक्रिया शुरू की जाए।  
(9) आवधिक जांच नहीं की गई।  
(10) नाभिकीय रिएक्टर पूर्णतः सुरक्षित है।

3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो स्थितियों पर यथा निदेशित मसौदे तैयार करें। (20+20 अंक)

(क) स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन, दो घंटे के लिए 'योगाभ्यास सत्र' चलाया जाना है। इस 'योगाभ्यास सत्र' में बाहर से अतिथि योग प्रशिक्षक को बुलाया जाना है। प्रत्येक सत्र के बाद सभी प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था एवं योग प्रशिक्षक को दिए जाने वाले मानदेय का विवरण देते हुए एक टिप्पणी तैयार करें। टिप्पणी के आधार पर सभी कर्मिकों को इस 'योगाभ्यास सत्र' में उपस्थित रहने संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए एक परिपत्र का मसौदा तैयार करें।

(ख) पशुपालन अनुसंधान केंद्र, बरेली के निदेशक की ओर से एक पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय के 30 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपने कार्यालय परिसर में ही करवाने का अनुरोध किया है। उक्त प्रस्ताव पर अपने अभिमत सहित टिप्पणी प्रस्तुत करें तथा पशुपालन अनुसंधान केंद्र को भेजे जाने वाले पत्र का मसौदा भी प्रस्तुत करें।

(ग) आपके विभाग के उप निदेशक श्री ... तीन अधीनस्थ कार्यालयों कोचीन, विशाखापट्टनम, तिरुवनन्तपुरम कार्यालयों का निरीक्षण करने वाले हैं। इसके लिए वे एक जगह हवाई जहाज, एक जगह रेल से तथा एक जगह टैक्सी से यात्रा करेंगे। तीनों कार्यालयों में एक-एक दिन उनको निरीक्षण करना है। उनके दौरा कार्यक्रम के आधार पर टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए जारी किए जाने वाले कार्यालय आदेश का मसौदा प्रस्तुत करें।

4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो स्थितियों पर टिप्पणी तैयार करें। (10+10 अंक)

(1) आपके कार्यालय के अधीन श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण हेतु आ रही है। निरीक्षण से पूर्व संसदीय प्रश्नावली के उत्तर तैयार किए जाने हैं। इसके लिए आपके दिल्ली स्थित कार्यालय से एक सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री ... को वहाँ भेजा जाना है। काम की तात्कालिकता को देखते हुए सहायक निदेशक श्री ... को हवाई जहाज से यात्रा करने की विशेष अनुमति देते हुए एक टिप्पणी प्रस्तुत करें।

(2) आपके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने अपने दैनिक कार्य के अतिरिक्त पूरे माह में पचास घंटे से अधिक काम किया है। उन कर्मिकों को पचास घंटे समयोपरि भत्ता देने की सिफारिश करते हुए अपने विभागाध्यक्ष को एक स्वतःपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।

(3) आपके अंचल की चार शाखाओं ने सूचित किया है कि उनके 80% कर्मिकों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। राजभाषा अधिकारी की तरफ से राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत उक्त शाखाओं को अधिसूचित करवाने हेतु मंडल प्रबंधक की तरफ से भेजे जाने वाले कार्यालय नोट का मसौदा तैयार करें।

5. नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय देते हुए हिंदी वाक्य दुबारा बनाएँ। (10 अंक)

1. कंप्यूटरों की मेंटेनेंस के लिए टैंडर मंगवाए जाएं।
2. इस केस में पाई गई इररेगुलरटी को सही किया जाए।
3. पीरियोडिकल चेकिंग नहीं की गई है।
4. इस बैंक की कस्टमर सर्विस संतोषजनक नहीं है।
5. इस प्रयोगशाला के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्ट किए जा सकते हैं।